

## पूर्व सिद्धता परीक्षा - 2022-23

विषय : तृतीय भाषा हिंदी

दिनांक :

विषय संकेत : 61H

(CCE RF छात्रों के लिए)

कुल समय : 3 घंटा

कुल अंक : 80

### परीक्षार्थियों के लिस सामान्य सूचनाएँ

- 1 इस प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ एवं गैर-वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 38 प्रश्न हैं ।
- 2 सभी वस्तुनिष्ठ तथा गैर-वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें ।
- 3 प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके दाहिनी ओर दर्शाया गया है ।
- 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए अलग उत्तर पत्रिका दिया जाएगा ।
- 5 उत्तर लिखने के लिए 3 गंठे का समय दिया जाएगा इसमें प्रश्न पत्रिका पढ़ने के लिए 15 मिनट शामिल है ।

### खंड - क

#### (व्याकरण)

1 निम्नलिखित प्रश्नों के लिये चार-चार विकल्प सुझाए गये हैं उनमें से सर्वोचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर के साथ लिखिए :

8x1=8

- 1 'एकैक' शब्द इस संधि का उदाहरण है ..... वृद्धि संधि  
a) दीर्घ संधि                      b) गुण संधि  
c) यण संधि                         d) वृद्धि संधि
- 2 निम्न शब्दों में 'पुलिंग' शब्द है ..... हाथी  
a) मोरनी                              b) गाय  
c) हाथी                                 d) भैंस
- 3 "पौफटना " इस मुह्वारे का अर्थ है ..... प्रभात होना  
a) डराना                              b) भाग जाना  
c) प्रभात होना                        d) चुगली करना
- 4 'सहयोग' शब्द का विलोम शब्द है ..... असहयोग  
a) नयोग                              b) बेयोग  
c) सहयोग हीन                        d) असहयोग
- 5 'लिखना' शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है ..... लिखाना  
a) लिख                                 b) लिखवाना

- c) लिखना                      d) लिखाना
- 6 "क्या तुम थक गई हो ?" इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है ..... प्रश्न चिन्ह  
 a) अल्प विराम                b) पूर्ण विराम  
 c) अर्ध विराम                 d) प्रश्न चिन्ह
- 7 'राजवंश' इस समास का उदाहरण है ..... तत्पुरुष समास  
 a) द्विविगु समास              b) अव्ययीभाव समास  
 c) तत्पुरुष समास            d) कर्मधारय समास
- 8 "नीति" शब्द बहुवचन रूप है ..... नीतियाँ  
 a) नीतियाँ                      b) नीती  
 c) नीतीयाँ                      d) नीतीयों

### खंड - ख

(गद्य, पद्य, पूरक वाचन और अपठित गद्य)

- II निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंध के आधार पर तीसरे शब्द का अनुरूप शब्द लिखिए :  $4 \times 1 = 4$
- 9 मेरा बचपन : आत्म कथा :: गिल्लू : ..... रेखाचित्र
- 10 एवरेस्ट पर चढ़नेवाले प्रथम पुरुष : तेनजिंग नोर्गे :: एवरेस्ट पर चढ़नेवाली प्रथम महिला : ..... जुंके ताबी
- 11 गोलगुंबज : वास्तुशिल्प : गोम्मत मूर्ती : ..... शिल्पकला
12. बसंत की सच्चाई : विष्णु प्रभाकर :: बाल शक्ति : ..... जगतराम आर्या

III निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक पूर्ण वाक्य में लिखिए :  $4 \times 1 = 4$

13 गिलहरी की समाधि कहाँ बनायी गयी है ?

उत्तर :- गिलहरी की समाधि सोनजुही लता के नीचे बनायी गयी है।

14 देश के प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में लिखिए ।

उत्तर :- देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है

15 अभिमान किसका मूल है ?

उत्तर :- अभिमान पाप का मूल है ।

16 मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है ?

उत्तर :-जब मनुष्य समय का सदुपयोग करता है, तब वह जरूर ही सुख पाता है । जो मनुष्य समय का सही पालन करता है वह अवश्य सुख को प्राप्ति करता है ।

IV निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए :  $8 \times 2 = 16$

17 लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था ?

उत्तर :- लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर सर से परदे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से नीचे उतर जाता था।

18 समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए ?

उत्तर :-समय बहुत ही मूल्यवान है ।इसलिए हमें पल-पल समय का सदुपयोग करना चाहिए । हमें जो काम आज करना है, उसे अभी करने का प्रयत्न करना चाहिए । अपने कर्तव्य का पालन करने में देर नही करनी चाहिए ।

### 19 व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या लाभ है ?

उत्तर :- से इंटरनेट द्वारा घर बैठे-बैठे खरीदारी कर सकते हैं | कोई भी बिल भर सकते हैं | समय बच जाता है | इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम बेजी जा सकती है |

20 लेखक परसाई जी का स्वागत कैसे किया गया ?

उत्तर :-स्टेशन पर स्वागत समिती के सदस्यों से उनका भव्य स्वागत हुआ | ८-१० बड़ी फूल मालाएँ पहनायी गयी | होटल के एक बड़े कमरे में टहराया गया |

### 21 लालिमा और किंचा लालिदाम जंगल के ओर क्यों चल पड़े ?

उत्तर :-लालिमा और किंचा लालिदाम मकान बनाना चाहते थे | परंतु वे मकान बनाने का तरीका नहीं जानते थे इसलिए वे दोनों दोस्त मकान बनाने की तरीका जानने के लिए पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े |

### 22 यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है ?

उत्तर :-यशोदा कृष्ण ले क्रोध को इस तरह कहकर शांत करती है - हे कृष्ण सुनो! बलराम जन्म से ही चुगलखोर है | मई गोधन की कसम रखकर कहती हूँ, मई सी तेरी माता हूँ, और तुम मेरे पुत्र हो |

### 23 शनि किसका पुत्र है ? और शनि को शनैःचर क्यों कहा जाता है ? अथवा

शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है | कैसे ?

उत्तर :- शनि सूर्य का पुत्र है | शनैःचर का अर्थ है धीमी गाती से चलनेवाला | शनि अपने कक्ष में बहुत धीमी गाती से चलने के कारण उसे शनैःचर कहा जाता है |

\*\*\*\*\*

उत्तर :-शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब दस गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्याताप उस ग्रह पर पहुंचता है | इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150<sup>0</sup> सेंटीग्रेड के आसपास रहने के कारण शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है |

### 24 सत्य क्या है ? उसका रूप क्या होता है ? अथवा अकुल ने मीना मेडम से क्या कहा ?

उत्तर :- सत्य बहुत भोला - भाला, बहुत ही सीधा-साधा है | जो कुछ भी अपनी आँखों से देखा, बिना मिर्च लगाए बोल दिया यही तो सत्य है |

\*\*\*\*\*

उत्तर :- आकुल ने मीना मेडम से कहा है कि एक नागरीक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्यौहार आदी का आदर करना चाहिए |

### V निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन-चार वाक्यों में लिखिए :

9x3=27

### 25 मातृभूमि का स्वरूप कैसा है ?

उत्तर :- कवि भगवतीचरण वर्मा जी अपनी कविता 'मातृभूमि' में भारतमाता की अखण्डता को दर्शाते हुए लिखते हैं कि भारत माँ सारे जग का रूप को बदलने के लिए न्याय रूपी पताका और ज्ञान रूपी दीप लिए खड़ी हैं, जय हिन्द का नाद सकल नगर और ग्राम में गूँज रही है | इस प्रकार मातृभूमि का स्वरूप सुशोभित होगा |

### 26 दूकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा ?

उत्तर :- दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आये हैं, खास कश्मीर से, आप ले जाइए खाकर तबीयत खुश हो जाएगी।

## 27 दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचर क्या है ?

**उत्तर :-** दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि मानव- मानव के बीच स्नेह, दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपसी दूरी को मिठाता है वही मानव कहलाने का अधिकारी है | यही मानव का सही परिचय है |

## 28 धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी ?

**उत्तर :-** धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत इस लिए थी कि, उनके नाती-पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर उनका काम सँभालने के लिए भी ।

## 29 बछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की ?

**उत्तर :-** कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए तीन शिखर दलों के दो समूह बना दिए। बछेंद्री सुबह चार बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चाकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात साढ़े पाँच बजे अपने तंबू से निकल पड़ी।

## 30 कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुशिल्प का परिचय दीजिए ।

**उत्तर :-** कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है । बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर हैं, उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है । बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं, वे सजीव लगती हैं । ये सुंदर मूर्तियाँ हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ सुनाती हैं । श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊँची गोमटेशवर की एकशिला प्रतिमा है, जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है । विजयपुरा के गोलगुंबज़ की व्हिस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है । मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है । प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन राजमहल (आर्ट गैलरी ) का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय हैं ।

## 31 निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए :

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छाँडिये, जब लग घट में प्राण ॥

**भावार्थ :-** प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का । इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण हैं, तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालू बने रहना चाहिए ।

## 32 शम्सुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे ?

**उत्तर :-** शम्सुद्दीन कलाम जी के चचेरे भाई थे । वह रामेश्वरम् में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम् स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुँचते थे, जो पामबन से आती थी । इस अखबार एजेंसी को अकेले शम्सुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम् में अखबारों की जुमला एक हजार प्रतियाँ बिकती थीं।

## 33 गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखिए :

कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं । इसलिए कर्नाटक को 'चंदन का आगार' कहते हैं । इससे चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनायी जाती हैं ॥

**अनुवाद :-** कर्नाटकದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು "ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೀಡು" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

## VI निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच-छः वाक्यों में लिखिए :

2x4=8

## 34 बसंत ईमानदार लड़का है कैसे ? अथवा

राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए ।

**उत्तर :-** बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है । उम्र मात्र बारह साल । पर वह परिश्रम से पैसा कमाना चाहता था । एक शहरी बाज़ार में वह छलनी, बटन, दियासलाई बेचकर जीवन बिताता था ।

बसंत पं.राजकिशोर जी को सौदा करने के लिए बहुत विनती करने पर मुफ्त में दो पैसे देते हैं। इसे भीख मानकर लेने से इनकार करता है। मोटर दुर्घटना के कारण घायल होकर घर में पड़े रहने पर भी, अपना भाई द्वारा साढ़े चौदह आने लौटाना चाहता है। इन घटनाओं में बसंत की ईमानदार दिखती है ।

\*\*\*\*\*

**उत्तर :-** पं.राजकिशोर जी किशनगंज में रहने वाले एक मजदूरों के नेता थे । दिखने में तो खदरधारी थे पर वे दयालू थे । बसंत अपने साथ सौदा करने के लिए विनती करने पर मुफ्त में २ पैसे देना चाहते हैं। उसे भीख मानकर इनकार करने से इस गुण से प्रभावित होकर बसंत से एक छलनी खरीदते हैं । प्रताप से बसंत के घायल होने के बारे में सुनते ही तुरंत डाक्टर जी को लेकर अहीर टीले में जाते हैं । बसंत को किसी भी हालत में बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इससे पं. राजकिशोर जी की मानवीयता और निःस्वार्थ भाव का परिचय मिलता है ।

**35 निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए :**

**-: उत्तर :-**

असफलता एक .....

**असफलता** एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,

.....

क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो ।

.....

जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम,

.....भागो तुम ।

संघर्ष का मैदान छोड़कर मत **भागो तुम** ।

**VII निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :**

**1x4=4**

36 **भीमराव रामजी आम्बेडकर** का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ । वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की १४ वीं व अंतिम संतान थे। आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त कीं तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किये थे । उन्होंने भारत में दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों (दलितों) से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मन्त्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे ।

**i) आम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ ?**

**उत्तर :-** आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ ।

**ii) आम्बेडकर जी कौन सा अभियान चलाया ?**

**उत्तर :-** आम्बेडकर जी भारत में दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों (दलितों) से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था।

**iii) आम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत में कौन सी मंत्री बने ?**

**उत्तर :-** आम्बेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मन्त्री, बने थे ।

**iv) आम्बेडकर जी अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि कहाँ से प्राप्त की ?**

**उत्तर :-** आम्बेडकर जी [कोलंबिया विश्वविद्यालय](#) और [लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स](#) दोनों ही विश्वविद्यालयों से [अर्थशास्त्र](#) में डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त कीं

**खंड - ग**  
**(रचना भाग)**

**VIII 37 नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12-15 वाक्यों में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए :**

**1x4=4**

क) इंटरनेट का उपयोग

- प्रस्तावना
- इंटरनेट का अर्थ
- इंटरनेट से लाभ
- उपसंहार

**प्रस्तावना :-**

आज का युग इंटरनेट का युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट का असर पड़ा है।

**इंटरनेट का अर्थ :-**

इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों (साईट्स) को एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है।

**इंटरनेट का महत्व एवं लाभ -**

इंटरनेट जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है। चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, और यहां तक की देश की रक्षा दलों की कार्यवाही में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है।

**इंटरनेट का लाभ :**

- इंटरनेट द्वारा घर बैठे - बैठे खरीदारी कर सकते हैं।
- कोई भी विचार हो जैसे : चित्र, वीडियो, आडियो आदी को कम समय में विश्व के कोई भी कोने को भेज सकते हैं।
- इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनियाँ के कोई भी बैंक को चाहे जितनी भी पैसे भेज सकते हैं।
- संचार और सूचना ने क्षेत्र में प्रगति हुई है।

**इंटरनेट के दुष्परिणाम :**

- इंटरनेट की वजह से पैरसी, बैंकिंग फ्राड, हैकिंग, आदी बढ़ रही है।
- मुक्त वेबसाइट्स के कारण अनावश्यक जानकारी पाना, चैटिंग, आदी से युवा पीडी बिगड़ रही है
- बच्चे अनावश्यक एवं अनुपयुक्त जानकारी हासिल कर रहे हैं।

**उपसंहार :**

उपर्युक्त विषय को देखते हुए हम कहा सकते हैं कि इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। हमें इंटरनेट का उपयोग केवल अच्छे ज्ञान को या जरूरतों को हासिल करने के लिए करना चाहिए ना कि अनावश्यक या अनुपयुक्त जानकारी के लिए। बच्चों को अपनी निगरानी में इंटरनेट का उपयोग करने देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इंटरनेट वरदान साबित होगा।

## ख) खेल का महत्व

- प्रस्तावना
- खेलों के प्रकार
- खेलों से लाभ.
- उपसंहार

## ग) जनसंख्या की समस्या

- प्रस्तावना
- जनसंख्या वृद्धि के कारण
- परिणाम
- उपसंहार

## प्रस्तावना :-

बढ़ती जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है | भारत को बढ़ती हुई जनसंख्या का सामना करना पड़ रहा है | दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है | जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है |

## जनसंख्या में वृद्धि के कारण :-

- विश्व की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति हुई है |
- विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज और उपचार शोध किया गया है | फलतः जन्म लेने वाले शिशुओं और रोगियों की मृत्यु दर में कमी हुई है , तथा औसत आयु में वृद्धि हुई है।
- अशिक्षा और गरीब वर्ग के लोगों के अज्ञान के कारण जनसंख्या में वृद्धि |
- धार्मिक श्रद्धा के कारण जन्म नियंत्रण और परिवार नियोजन विधियों को नहीं अपनाना |

## जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम :-

- बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश की प्रगति कुंठित होती है |
- वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है |
- बेकारी और बेरोजगारी की वजह से अपराधों में वृद्धि हुई है |
- पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है |

## भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम :

- सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21वर्ष और महिलाओं के लिए 18वर्ष तक की है |
- दत्तक ग्रहण को बढ़ावा दिया गया है |
- सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं ने सभाओं , गोष्ठियाँ , संचार माध्यमों द्वारा छोटे परिवार से होने वाले फायदों का प्रचार किया जाय |

## उपसंहार:-

भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या गंभीर चिंता का विषय है | हालांकि सरकार ने जिस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत सरे कदम उठाए हैं, लेकिन यह नियंत्रण पर्याप्त प्राभावी नहीं हैं | इस समस्या को रोकने के लिए भी अन्य उपाय किए जाने का आवश्यकता है |

IX 38 अपनी बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के कारण बताते हुए चार दिन की छुट्टी के लिए अपने  
प्रधानाध्यापक के नाम पर एक छुट्टी पत्र लिखिए

1x5=5

अथवा

शैक्षिक यात्रा पर जाने के लिए अनुमति और पैसे मागते हुए पिता के नाम पर एक पत्र लिखिए ।

प्रेषक ,

दिनांक :10.02.2023

रोशनी के

10 वी कक्षा, A विभाग,

सरकारी प्रौढ़शाला एल.एन.पुरा

कोप्पा ताल्लूक

चिक्कमगलूरु जिल्ला

सेवा में,

मान्य प्रधानाध्याप जी

सरकारी प्रौढ़शाला एल.एन.पुरा

कोप्पा ताल्लूक

चिक्कमगलूरु जिल्ला

मान्य महोदय :

विषय : बहन की शादी के कारण चार दिनों की छुट्टी माँगते हुए निवेदन ।

मैं खुशी.होंगल, आपके पाठशाला में 10वी कक्षा A विभाग में पढ़ने वाली विद्यार्थिनी हूँ । गुरुजी हमारे घर में मेरी बड़ी बहन की शादी बड़ी धूम-धाम से प्रथानुसार होने वाली है । घर में डेर सारे काम हैं तथा घर की सजावट मेरी ज़िम्मेदारी है । इसलिए इस शुभ अवसर में भाग लेने के लिए दिनांक : 11.02.2023 और 14.02.2023 तक चार दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें ।

धन्यवाद के साथ . . . .

पालक के हस्ताक्षर :@@@

आपके विधेय विद्यार्थिनी

रोशनी के